



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 444]  
No. 444]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 1983/कार्तिक 27, 1905  
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 1983/KARTIKA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1983

सं० 272/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां०कां०नि० 845(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय  
उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1)  
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-  
शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की  
पहली अनुसूची की मद सं० 18 के अन्तर्गत आने वाले  
अपेक्षित अपशिष्ट को, उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट  
दर पर उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उत्तम  
उत्पाद-शुल्क से छूट देनी है जितना मूल्य के 50 प्रतिशत  
की दर पर संगणित रकम से या नौ रुपये प्रति किलोग्राम  
से, इनमें से जो भी कम हो उससे, अधिक है।

[फा०सं० 357/5/83-टी०आर०यू०]

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)  
NOTIFICATIONS

New Delhi, the 18th November, 1983

No. 272/83—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 845 (E).—In exercise of the powers conferred by  
sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the  
Central Government hereby exempts non-cellulosic wastes  
falling under Item No. 18 of the First schedule to the Central  
Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty  
of excise leviable thereon under the said Act at the rate speci-  
fied in the said First Schedule, as is in excess of the amount  
calculated at the rate of 50% ad valorem or nine rupees per  
kilogram, whichever is less.

[F. No. 357/5/83—TRU]

सं० 273/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां०कां०नि० 846(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय  
उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 नियम 8 के उपनियम (1)  
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के  
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 81/83-

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, क्रम सं० 88 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:—

“89 सं० 272/83-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 18 नवम्बर, 1973।”

[फा०सं० 357/5/83-टी०आर०यू०]

#### No. 273/83—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 846 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 81/83—Central Excises, dated the 1st March, 1983, namely—

In the Schedule annexed to the said notification, after Sl. No. 88 and the entry relating thereto, the following Sl. No. and entry shall be inserted, namely:—

“89 No. 272/83-Central Excises, dated the 18th November 1983.”

[F. No. 357/5/83—TRU]

सं० 308/83-सीमा-शुल्क

सा०का०नि० 847(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की ऐसी प्रत्येक अधिसूचना का, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से यथास्थिति, संशोधन या और संशोधन किया जायेगा।

#### सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	215-सीमाशुल्क, तारीख 1 नवम्बर, 1980	उक्त अधिसूचना में, परन्तु में,— (क) मद(iii) में, अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जायेगा; (ख) मद(iv) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:— “(v) असेलुलोसी फाइबर के साथ सेलुलोसी फाइबर का मिश्रण या सम्मिश्र।”
2.	276-सीमाशुल्क, तारीख 14 नवम्बर, 1982	उक्त अधिसूचना में, आरंभिक पैरा के पश्चात् और सारणी में पहले निम्नलिखित परन्तु अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
3.	38-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 1983	उक्त अधिसूचना में, परन्तु के पश्चात् निम्नलिखित परन्तु अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:— “परन्तु यह और कि इस अधिसूचना की कोई बात असेलुलोसी फाइबर के साथ सेलुलोसी फाइबर के मिश्रण या सम्मिश्र को लागू नहीं होगी।”

[फा०सं० 357/20/83-टी०आर०यू०]

गौतम रे, अवर सचिव

#### NO. 308/83—CUSTOMS

G.S.R. 847(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

#### TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	215—Customs, dated the 1st November, 1980.	In the said notification, in the proviso,— (a) in item (iii), the word “and” occurring at the end, shall be omitted; (b) after item (iv), the following item shall be inserted, namely:— “(v) mixtures or blends of cellulosic fibre with non-cellulosic fibre”.
2.	276—Customs, dated the 14th December, 1982	In the said notification, after the opening paragraph and before the Table, the following proviso shall be inserted, namely:— “Provided that the exemption contained in this notification shall not apply to mixtures or blends of cellulosic fibre referred to in the said Table with non-cellulosic fibre”.
3.	38—Customs, dated the 1st March, 1983	In the said notification, after the proviso, the following further proviso shall be inserted, namely:— “Provided further that nothing contained in this notification shall apply to mixtures or blends of cellulosic fibre with non-cellulosic fibre”.

[F. No. 357/20/83—TRU]

GAUTAM RAY, Under Secy